

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने डिस्टिंगुइशड बजट प्रेजेंटेशन अवॉर्ड हासिल किया

ब्रैम्पटन, ओनटारियो (21 मई, 2021) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने लगातार पांचवें वर्ष, अमेरिका और कॅनेडा की गवर्नमेंट फाइनेंस ऑफिसर्स एसोसिएशन (जी.एफ.ओ.ए.) (Government Finance Officers Association) (GFOA) से डिस्टिंगुइशड बजट प्रेजेंटेशन अवॉर्ड (Distinguished Budget Presentation Award) हासिल किया है।

यह अवॉर्ड, सरकारी बजट बनाने के सबसे ऊंचे सिद्धांतों को पूरी करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के लिए काफी बड़ी उपलब्धि को दर्शाता है। डिस्टिंगुइशड बजट प्रेजेंटेशन अवॉर्ड हासिल करने के लिए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने प्रभावशाली बजट पेश करने के लिए राष्ट्रीय तौर पर मान्यता प्राप्त गाइडलाइनों को पूरा किया था। इन गाइडलाइन्स में शामिल हैं:

- नीति दस्तावेज;
- वित्तीय योजना;
- संचालन मार्गदर्शन: और,
- संचार डिवाइस।

यह अवॉर्ड हासिल करने के लिए, बजट दस्तावेजों की सभी चार श्रेणियों में और 14 आवश्यक मापदंडों में निपुण रेटिंग होनी आवश्यक है। ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने 9 दिसम्बर, 2020 को 2021 के बजट को मंजूरी दी थी। जिसमें काउंसिल ने इस टर्म ऑफ काउंसिल (Term of Council) के दौरान लगातार तीसरे वर्ष के लिए प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़ाए थे और 114 मिलियन डॉलर की आरक्षित संपत्तियां रखने का रिकॉर्ड योगदान दिया था।

जी.एफ.ओ.ए. के बजट अवॉर्ड्स प्रोग्राम (Budget Awards Program) में 1,600 से अधिक भागीदार हैं। जी.एफ.ओ.ए., 20,500 से अधिक मेम्बर्स के लिए बेहतर पद्धतियां, पेशेवर विकास, संसाधन और प्रेक्टिकल रिसर्च प्रदान करके, सरकारी वित्तीय व्यवस्था में उत्कृष्टता को आगे बढ़ाती है।

हवाले

“हमारे 2020 के बजट के लिए अमेरिका और कॅनेडा की गवर्नमेंट फाइनेंस ऑफिसर्स एसोसिएशन से डिस्टिंगुइशड बजट प्रेजेंटेशन अवॉर्ड जीतना एक प्रभावशाली उपलब्धि है, खास करके कोविड-19 महामारी के दौरान। यह अवॉर्ड, वित्तीय पारदर्शिता और बढ़िया शासन में काफी बड़ी उपलब्धि को दर्शाता है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, बजट कमेटी के चेयर

“यह पांचवां सफल वर्ष है, जब सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने इस डिस्टिंगुइशेड अवॉर्ड के लिए आवेदन किया और इसे हासिल किया है। बजट एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है, जिसमें, काउंसिल, स्टाफ और जनता तथा बिजनेस कम्युनिटी के मेम्बर, शहर के भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। एक स्पष्ट, पारदर्शी और सूचनात्मक बजट दस्तावेज ने, यह अवॉर्ड जीतने में हमारी मदद की।”

- *पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5, और वाइस चेयर, बजट कमेटी*

“सरकारी बजट बनाने में यह प्रतिष्ठित अवॉर्ड हासिल करने पर हमें बहुत गर्व है। यह उपलब्धि, अच्छी-तरह संचालित शहर को कायम रखने के हमारे प्रयासों को दर्शाते हुए, हमारी कम्युनिटी के लिए सबसे बढ़िया प्रदान करने की, टीम ब्रैम्पटन की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।”

- *डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca